



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 806) पटना, वृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2013

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना  
4 अक्टूबर 2013

सं0 4 (न) नीति-102/01-2478/न0वि0एवंआ0वि0—चूँकि राज्य सरकार ने नवगठित नगर पंचायत, महुआ एवं नगर पंचायत, कोचस का आम निर्वाचन, 2013 में कराने का निर्णय लिया है,  
और चूँकि उक्त प्रयोजनार्थ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व वार्डों/पार्षदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत कर अधिसूचित की जानी है,  
अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पंचायतों का आम निर्वाचन, 2013 के लिए निम्नवत् वार्डों/पार्षदों की संख्या नियत की जाती है:-

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	नियत वार्डों/पार्षदों की संख्या
1	2	3
1	नगर पंचायत, महुआ	16 (सोलह)
2	नगर पंचायत, कोचस	16 (सोलह)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा0 राजीव कुमार,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 806-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>